

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



## प्रमुख खबरें

- खचीन ने मूल्य वृद्धि के कारण उर्वरक निर्माताओं से यूरिया निर्यात रोकने को कहा है।
- त्योहारी सीजन के दौरान कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने मसूर के अनिवार्य स्टॉक खुलासे के लिए सलाह जारी की।
- चीन के सामान्य सीमा शुल्क प्रशासन से प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चीन का सोयाबीन आयात जुलाई के 9.73 मिलियन टन से कम होकर 9.36 मिलियन टन हो गया।
- केंद्रीय जल आयोग के बुलेटिन के अनुसार, भारतीय जलाशयों का भंडारण स्तर पिछले 10 वर्षों के औसत से नीचे बना हुआ है। 27 जलाशयों में जल स्तर सामान्य से 50 से नीचे है।
- भारत अगस्त में स्टील का शुद्ध आयातक बना रहा। अगस्त में 4.8 लाख टन के निर्यात के मुकाबले 5.3 लाख टन स्टील का आयात किया गया।
- सऊदी प्रेस एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सऊदी अरब प्रति दिन 1 मिलियन बैरल की स्वैच्छिक कटौती को वर्ष के अंत तक बढ़ाएगा।
- सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में चीन का तांबा आयात एक साल पहले की तुलना में 5% घटकर कुल 473,330 मीट्रिक टन रह गया।
- अमेरिकी मौसम एजेंसी ने फरवरी 24 तक अल नीनो जारी रहने की संभावना को 95% तक बढ़ा दिया है।
- एंडियन देश के ऊर्जा और खान मंत्रालय के अनुसार पेरू में तांबे का उत्पादन जुलाई में साल-दर-साल 17.7% बढ़ गया, और कुल उत्पादन 229,728 मीट्रिक टन हो गया।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.09.23	07.09.23	बदलाव (%)
जीरा	57650.00	61410.00	6.52%
बाजरा	1978.00	2046.00	3.44%
सीसेम सीड	17670.00	18155.00	2.74%
गुड़	1458.50	1484.50	1.78%
जौ	1993.00	2019.50	1.33%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.09.23	07.09.23	बदलाव (%)
कॉटनऑयलसीडकेक	2799.00	2680.00	-4.25%
हल्दी	15114.00	14704.00	-2.71%
धनिया	7088.00	6912.00	-2.48%
ग्वारगम	13018.00	12912.00	-0.81%
कैस्टर	6267.00	6238.00	-0.46%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.09.23	07.09.23	बदलाव (%)
कच्चा तेल	7002.00	7175.00	2.47%
निकल	1728.10	1753.00	1.44%
कपास	1520.00	1520.00	0.00%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	01.09.23	07.09.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	258.10	246.50	-4.49%
मेंथा ऑयल	1030.30	985.90	-4.31%
तांबा	741.15	730.60	-1.42%
लेड	190.70	188.90	-0.94%
एल्युमीनियम	204.65	202.75	-0.93%

## साप्ताहिक समीक्षा

पिछले सप्ताह सीआरबी सीमित दायरे में फंसा रहा। डॉलर सूचकांक में भारी वृद्धि, जो 105 के स्तर को पार कर गया था, के कारण सर्राफा की कीमतें उच्च स्तर पर नहीं रह सकी। गुरुवार को डॉलर में मजबूती और ट्रेजरी यील्ड के दबाव में सोने की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि स्थिर मुद्रास्फीति के संकेतों ने इस चिंता को बढ़ा दिया कि फेडरल रिजर्व अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रखेगा। उच्च दरों की संभावना सोने के लिए खराब संकेत है, जो सर्राफा में निवेश की अवसर लागत को बढ़ाते हैं। मजबूत डॉलर सोने के प्रति औसत मूल्य को भी कम कर देता है। ऊर्जा परिसर में, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया जबकि नेचुरल गैस वायदा की कीमतें महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे टूट गईं। तेल की कीमत 90 डॉलर प्राप्त करने की सऊदी का प्रयास मंगलवार को पूरा हुआ जब सऊदी अरब ने सहयोगी रूस के साथ मिलकर एक घोषणा में कहा कि जुलाई में शुरू की गई 1 मिलियन बैरल प्रति दिन की कटौती दिसंबर तक लागू रहेगी, जिसमें क्रेमलिन प्रतिदिन 300,000 बैरल कटौती का अतिरिक्त योगदान देगा। अमेरिकी गैसोलीन खपत का चार सप्ताह का औसत-ईंधन की मांग का सबसे अच्छा गेज-25 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए 9.033 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, जबकि एक साल पहले का स्तर 8.874 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। बेस मेटल की कीमतों पर दबाव रहा। तांबे की वायदा कीमतों में तीन सप्ताह से हो रही बढ़त कमजोर आर्थिक संकेतों के कारण रूक गई। लेड की कीमतें नकारात्मक रुझान के साथ दायरे में थी। एल्युमीनियम और जिंक की कीमतों में गिरावट हुई। लेकिन बुधवार के आंकड़ों से पता चला कि अमेरिकी सेवा क्षेत्र की गतिविधि अगस्त में उम्मीद से अधिक बढ़ी। यूरोप में कमजोर आर्थिक आंकड़ों से बेस-मेटल की मांग को लेकर चिंता बढ़ गई है। जुलाई में जर्मनी के मैनुफैक्चरिंग ऑर्डर उम्मीद से अधिक कम हो गए, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रमुख मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र से वस्तुओं की मांग में गिरावट का संकेत देता है।

कृषि कमोडिटीज पर भी दबाव रहा। अरंडी का रकबा अधिक होने की खबरों के बीच घरेलू बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण अरंडी बीज 6300 के नीचे बंद हुआ। कॉटनऑयलसीडकेक (सितंबर) वायदा में गिरावट हुई और दिसंबर वायदा में तेजी दर्ज की गई। इसलिए दो कॉन्ट्रैक्टों के बीच स्प्रेड में गिरावट आई। मसालों में, केवल जीरा ही था जिसने खरीदारों को अवसर दिया। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में फसल की स्थिति में सुधार के कारण हल्दी और धनिया की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। धनिया के भाव लगातार छठे सप्ताह मंदी में बंद हुए। ग्वारसीड और ग्वारगम की कीमतें दबाव में थीं। वर्ष 2023 में ग्वार का उत्पादन क्षेत्र पहले से ही 10% -12% कम हो गया है और अब उपज की धूमिल संभावना के कारण उत्पादन में कमी आने की संभावना है। ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों की मांग बढ़ी है जिससे ग्वार की कीमतों को समर्थन मिलेगा। भारत ने अक्टूबर-22-जून-23 के दौरान लगभग 132.7 हजार टन ग्वार मील का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष यह 92.7 हजार टन निर्यात हुआ था।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	01.00.2023	07.09.2023	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	1,985.50	2,014.05	1.44%
चना	दिल्ली	6,591.40	6,453.10	-2.10%
धनिया	कोटा	7,258.70	7,258.70	0.00%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	815.30	796.85	-2.26%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,453.05	1,480.50	0.00%
ग्वारसीड	जोधपुर	6,276.40	6,298.10	0.00%
ग्वारगम	जोधपुर	13,079.55	13,071.35	0.00%
जीरा	ऊझा	57,628.20	60,237.70	4.53%
सरसों	जयपुर	5,858.10	5,833.35	-0.42%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	937.50	925.00	-1.33%
सोयाबीन	इंदौर	5,190.40	5,058.75	-2.54%
हल्दी	निजामाबाद	14,248.45	14,045.20	-1.43%
गेहूं	दिल्ली	2,521.80	2,528.75	0.28%
कॉटन	कड़ी	29,138.10	29,640.05	1.72%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2,754.40	2,688.45	-2.39%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	01.09.2023	07.09.2023	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2237.00	2196.00	-1.83%
तांबा	LME	नकद	8500.50	8321.00	-2.11%
लेड	LME	नकद	2248.50	2229.50	-0.85%
निकल	LME	नकद	21085.00	20482.00	-2.86%
जिंक	LME	नकद	2485.50	2479.50	-0.24%
सोना	COMEX	अक्टूबर	1957.80	1933.30	-1.25%
चांदी	COMEX	सितम्बर	24.33	23.04	-5.31%
लाइट क्रूड	NYMEX	सितम्बर	85.55	86.87	1.54%
नेचुरल गैस	NYMEX	सितम्बर	2.77	2.58	-6.73%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	01.09.2023	07.09.2023	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	नवम्बर	13.69	13.59	-0.73%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	63.29	60.78	-3.97%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	89.95	85.38	-5.08%
सीपीओ	BMD	नवम्बर	4,040.00	3,832.00	-5.15%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	31.08.2023 क्वांटिटी	07.09.2023 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	0	0	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	12034	12003	-31
चना	मी.टन	13888	13358	-530
धनिया	मी.टन	29861	30059	198
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	17336	17526	190
ग्वारगम	मी.टन	26226	25340	-886
ग्वारसीड	मी.टन	87	87	0
जीरा	मी.टन	4867	4960	93
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन्ग	मी.टन	432	522	90
हल्दी	मी.टन	1461	1680	219

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	01.09.2023 क्वांटिटी	07.09.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	806	587	-220
तांबा	मी.टन	524995	506979	-18016
सोना	किग्रा	604	604	0
सोना मिनी	किग्रा	2672	2672	0
सोना गिनी	किग्रा	690700	654200	-36500
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	83321	79037	-4285
चांदी एम	किग्रा	40385	40385	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 01.09.2023	स्टॉक की स्थिति 07.09.2023	अंतर
एल्युमीनियम	506400	501475	-4925.00
तांबा	107425	133850	26425.00
निकल	37170	37386	216.00
लेड	55350	54275	-1075.00
जिंक	153575	145175	-8400.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अक्टूबर	62860.00	31.08.23	तेजी	54000.00	60070.00	-	60000.00
NCDEX	हल्दी	अक्टूबर	14704.00	31.08.23	साइडवेज	15200.00	13800.00	16500.00	-
NCDEX	ग्वारसीड	अक्टूबर	6435.00	28.06.23	तेजी	5350.00	6150.00	-	6100.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अक्टूबर	6303.00	15.06.23	तेजी	5750.00	6030.00	-	6000.00
NCDEX	स्टील लांग	अक्टूबर	46700.00	16.08.23	तेजी	45200.00	45850.00	-	45800.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अक्टूबर	2680.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2530.00	-	2500.00
MCX	मेंथा ऑयल	सितम्बर	966.00	31.08.23	तेजी	1025.00	935.00	-	930.00
MCX	बुलडेक्स	सितम्बर	15745.00	05.09.23	मंदी	15900.00	-	16120.00	16150.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	71770.00	05.09.23	मंदी	74000.00	-	74900.00	75000.00
MCX	सोना	अक्टूबर	58998.00	29.08.23	मंदी	59400.00	-	58100.00	58000.00
MCX	तांबा	सितम्बर	728.05	06.09.23	मंदी	735.00	-	747.00	750.00
MCX	लेड	सितम्बर	187.80	13.07.23	साइडवेज	182.00	183.00	193.00	-
MCX	जिंक	सितम्बर	221.95	31.08.23	साइडवेज	220.00	210.00	230.00	-
MCX	एल्युमिनियम	सितम्बर	201.25	30.08.23	मंदी	200.00	-	209.00	210.00
MCX	कच्चा तेल	सितम्बर	7227.00	12.07.23	तेजी	6050.00	6920.00	-	6900.00
MCX	नेचुरल गैस	सितम्बर	215.40	31.08.23	तेजी	230.00	200.50	-	200.00

\*07/09/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़ने वाली आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### जिंक ( सितम्बर ) एमसीएक्स



### जिंक ( सितम्बर ) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 229.40

निचला स्तर: 208.60

एमसीएक्स में जिंक ( सितम्बर ) कॉन्ट्रैक्ट 07 सितम्बर 2023 को 221.95 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 218.32 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 52.269 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

227.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 210.00 ₹ के टारगेट के लिए 221.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

### ग्वारगम ( अक्टूबर ) एनसीडीईएक्स



### ग्वारगम ( अक्टूबर ) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 14060.00

निचला स्तर: 11853.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारगम ( अक्टूबर ) कॉन्ट्रैक्ट 07 सितम्बर 2023 को 13208.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 12506.70 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 55.52 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

12350.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 14000.00 ₹ के टारगेट के लिए 12950.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कच्चा तेल ( सितम्बर ) एमसीएक्स



### कच्चा तेल ( सितम्बर ) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 7315.00

निचला स्तर: 5630.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल ( सितम्बर ) कॉन्ट्रैक्ट 07 सितम्बर 2023 को 7227.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6525.08 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 66.518 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6950.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 7650.00 ₹ के टारगेट के लिए 7130.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

हल्दी की कीमतों के तेजी के रुख के साथ साइडवेज कारोबार करने की उम्मीद है। कम आवक के कारण आपूर्ति कम हो गई है। हाल के सप्ताहों में त्योहारी खरीद में वृद्धि हुई है, जिससे मिल मालिकों को कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए बढ़ावा मिला है। आगामी सीजन के लिए फसल की संभावनाएं कमजोर हैं क्योंकि मुख्य रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना में हल्दी का रकबा कम हो गया है जिससे कीमतों को समर्थन मिल रहा है। लेकिन सितंबर में अच्छी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर फसल की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि सामान्य से अधिक होने की संभावना है, जिससे फसल की प्रगति में मदद मिलेगी। एनसीडीईएक्स ने 20 सितंबर तक हल्दी के सभी मौजूदा पर इवेंट आधारित अतिरिक्त निगरानी मार्जिन (ई-एएसएम) लगाया है, जो हल्दी की कीमतों में बढ़त को सीमित करेगा। पिछले वर्ष के 196 हजार टन की तुलना में अप्रैल-23 से अब तक लगभग 227 हजार मीट्रिक टन की आवक दर्ज की गई है, लेकिन अधिकांश आवक निम्न गुणवत्ता वाली है। हल्दी वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 13000-17400 के दायरे में रहने की संभावना है।

स्थानीय बाजार में आपूर्ति घटने के कारण जीरा वायदा की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। बढ़ती त्योहारी मांग और बाजार में गुणवत्ता वाली फसलों की सीमित उपलब्धता कीमतों में हर गिरावट के साथ मिल मालिकों को खरीदारी के लिए प्रेरित कर रही है। ई के पूर्वानुमानों के अनुसार, इस साल जीरे की मांग 85 लाख बैग से अधिक होने का अनुमान है, जबकि अपेक्षित उत्पादन 65 लाख बैग है। हाल के सप्ताहों में निर्यात मांग कम रही है क्योंकि भारतीय जीरे की कीमतें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रही हैं। चीन ने अपनी खरीदारी कम कर दी है जिससे कीमतों में बढ़त सीमित हो गई है। अप्रैल-जून 2023 के दौरान, जीरा निर्यात 2022 की समान अवधि की तुलना में 13.16% बढ़कर 53,399.65 टन तक पहुंच गया। कमजोर फसल के कारण पाइपलाइन में जीरा नहीं है और जब तक नई फसल बाजार में नहीं आती, स्टॉक कम रहने की संभावना है। जीरा की कीमतें 58000-67000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

निर्यात मांग बढ़ने से धनिया वायदा (अक्टूबर) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। भारत ने जून-23 में पिछले वर्ष के 2.4 हजार टन की तुलना में लगभग 11.3 हजार टन धनिया का निर्यात किया। भारत ने अप्रैल-जून-23 की समयावधि के दौरान पिछले वर्ष के 8.7 हजार टन के मुकाबले लगभग 46.7 हजार टन का निर्यात किया। वर्ष 2023 में चीन, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात भारतीय धनिये के प्रमुख खरीदार रहे हैं। हाल के सप्ताहों में आपूर्ति में गिरावट आई है क्योंकि सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में भारत भर की प्रमुख एपीएमसी मंडियों में लगभग 2589 टन धनिया की आवक हुई, जबकि पिछले वर्ष समान सप्ताह में 4685 टन की आवक हुई थी। अधिकांश स्टॉक स्टॉकस्टों के पास हैं। धनिया की कीमतों के 6900-7700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

गुजरात में हाल के हफ्तों में मानसून की बारिश हुई है और आने वाले हफ्तों में भी सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। जिससे फसल की प्रगति में आसानी होगी। लेकिन कम रकबे की रिपोर्ट से कीमतों की गिरावट पर अंकुश लगेगा। वर्ष 2023 में 1 सितंबर को पूरे भारत में कपास का क्षेत्रफल 122.99 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछले वर्ष यह 125.64 लाख हेक्टेयर था। कमजोर निर्यात मांग और सुस्त औद्योगिक खरीदारी से कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन, आगामी सीजन की कमजोर उत्पादन संभावनाओं के मद्देनजर नुकसान सीमित होने की संभावना है। एमसीएक्स पर कोटन (नवम्बर) की कीमतों के 59500-64300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1580-1700 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

घरेलू बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण कॉटनसीडऑयलकेक (दिसम्बर) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। लेकिन कपास के रकबे में गिरावट की रिपोर्ट से कीमतों की गिरावट पर लगाव लगेगा। कॉटनसीडऑयलकेक की मौसमी कीमत सितंबर में कीमतों में गिरावट का संकेत देती है। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2700-2950 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

हाजिर मांग बढ़ने के कारण ग्वारसीड (अक्टूबर) वायदा की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। स्टॉकिस्ट उत्पादन और उपज में गिरावट की आशंका में सक्रिय हैं क्योंकि राजस्थान में शुष्क मौसम की स्थिति ने फसल की प्रगति को बुरी तरह प्रभावित किया है। वर्ष 2023 में ग्वार का उत्पादन क्षेत्र पहले से ही 10% -12% कम हो गया है और अब उपज की धूमिल संभावना के कारण उत्पादन में कमी आने की संभावना है। ग्वार डेरिवेटिव उत्पादों की मांग बढ़ी है जिससे ग्वार की कीमतों को समर्थन मिलेगा। भारत ने अक्टूबर-22-जून-23 के दौरान लगभग 132.7 हजार टन ग्वार मील का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष यह 92.7 हजार टन निर्यात हुआ था। ग्वारसीड की कीमतों को 6800 के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करने की संभावना है जबकि सपॉर्ट 600 पर रहने की संभावना है। ग्वारमाग की कीमतें 11400-14500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

भौतिक बाजार में सक्रिय मांग के कारण मेंथा ऑयल (सितंबर) वायदा की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। मेंथॉल के लिए उभरती ताजा निर्यात पूछताछ के कारण स्टॉकिस्ट खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। कम रकबा के कारण वार्षिक आधार पर मेंथा ऑयल का कुल उत्पादन कम होने की संभावना है, जिससे कीमतों में गिरावट पर अंकुश लगेगा। मेंथा ऑयल की कीमतें 950-1040 के दायरे में रहने की संभावना है।

गुजरात में अरंडी के उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की रिपोर्ट के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। अरंडी के तहत अधिक क्षेत्र की रिपोर्ट से कीमतों पर दबाव रहेगा क्योंकि 1 सितंबर तक पूरे भारत में लगभग 8.53 लाख हेक्टेयर में अरंडी की बुआई की गई थी, जबकि पिछले वर्ष 7.26 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। लेकिन गुजरात में मौजूदा मौसम संबंधी चिंताएं नुकसान को सीमित कर देंगी। अरंडी (अक्टूबर) वायदा की कीमतों के 5900-6600 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्पाफा

अमेरिकी डॉलर की निरंतर मजबूती और स्थिर ट्रेजरी यील्ड के कारण सोने की कीमतों में साप्ताहिक गिरावट देखी गई। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से प्रभावित थी, जिसने चिंता जताई कि फेडरल रिजर्व एक विस्तारित अवधि के लिए उच्च ब्याज दरों को बनाए रखेगा। लचीले आर्थिक संकेतकों की एक श्रृंखला के कारण अमेरिकी डॉलर नौ वर्षों में अपनी सबसे लंबी साप्ताहिक बढ़त के उच्च स्तर पर था। एक उल्लेखनीय घटना यह थी कि नए राज्यों में बेरोजगारी लाभ के दावों में अप्रत्याशित गिरावट फरवरी के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई। इसी तरह से, नौकरियों के बेहतर आंकड़ों के बाद अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड शुरू में बढ़ी, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई क्योंकि निवेशकों ने फेडरल रिजर्व के विभिन्न अधिकारियों के बयानों पर बारीकी से नजर रखी। न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने मुद्रास्फीति में गिरावट और अधिक संतुलित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते हुए भविष्य की ब्याज दर नीतियों के प्रति सतर्क रुख अपनाया। इससे पता चलता है कि महीने के अंत में दरों में बढ़ोतरी लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। दूसरी ओर, डलास फेड के अध्यक्ष लोरी लोमोन ने सुझाव दिया कि सितंबर में ब्याज दर में वृद्धि को रोकने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन मुद्रास्फीति को समय पर 2% के लक्ष्य तक लाने के लिए नीति को अतिरिक्त सख्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जैसा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है, चीन का सोने का भंडार जुलाई के अंत में 68.69 मिलियन औंस से बढ़कर अगस्त के अंत तक 69.62 मिलियन ट्राय औंस हो गया। इसके अलावा, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने बताया कि सोने में सटोरियों की शुद्ध पोजिशन 123.3 हजार तक पहुंच गई, जो कि 101.9 हजार के पिछले आंकड़े की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है। कॉम्पेक्स में सोने और चांदी की कीमतें नरमी के रुझान के साथ एक दायरे में (सोना: 1910-1950, चांदी: 21.100-24.300) कारोबार कर सकती हैं। एमसीएक्स पर सोने में बिकवाली का दबाव (57000-60000) है, जबकि एमसीएक्स पर चांदी में रेंजिस्टेंस स्तर (67000-74000) के करीब बिकवाली का सुझाव है।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

नवंबर के बाद से कच्चे तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई क्योंकि सऊदी अरब और रूस ने अपने उत्पादन में स्वेच्छिक कटौती को साल के अंत तक बढ़ा दिया, जिससे सर्दियों में आपूर्ति की कमी की चिंता बढ़ गई। यद्यपि बाजार को अक्टूबर तक कटौती जारी रखे जाने की उम्मीद थी, लेकिन तीन महीने तक अप्रत्याशित विस्तार ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। फ्रंट-माह की ब्रेट और डब्ल्यूटीआई कॉन्ट्रैक्ट में नवंबर के बाद से भविष्य की डिलीवरी के लिए व्यापक प्रीमियम पर कारोबार किया, जो तत्काल मांग के लिए आपूर्ति में कमी का संकेत देता है। यह बाजार की ऐसी स्थिति है, जिसे बैकवॉर्डेशन के रूप में जाना जाता है। यह सऊदी अरब द्वारा जुलाई में शुरू की गई कटौती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीदों के परिणामस्वरूप हुआ, जिससे गंभीर मंदी की संभावना कम हो गई और तेल की मांग और कीमतों में वृद्धि हुई। जून के अंत से, ब्रेट और डब्ल्यूटीआई दोनों वायदा की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 20% से अधिक बढ़ी है। लेकिन, ईरान और वेनेजुएला से तेल उत्पादन में वृद्धि, संभावित रूप से सऊदी अरब और रूस द्वारा कुछ कटौती की भरपाई करने, और इस प्रकार बाजार की तेजी की संभावना को सीमित करने की आशंका बनी हुई है। आने वाले सप्ताह में, कीमतें तेजी के रुझान के साथ व्यापार करना जारी रख सकती हैं, लेकिन वर्तमान में तेजी बहुत अधिक दिख रही है और उच्च स्तर से कुछ मुनाफावसूली की उम्मीद है, कीमतों को 6850 के करीब सपॉर्ट मिल सकता है और 7480 के करीब रेंजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। नेचुरल गैस की कीमतें गिरकर नीचे आ गई हैं। दो सप्ताह का निचला स्तर, क्योंकि तुफानों से उत्पन्न अस्थायी उछाल कम हो गया है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों की हड़ताल के बारे में चिंताएं फिलहाल कम हो गई हैं। कीमतों में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से मौसम के पैटर्न और अक्टूबर में प्रचलित होने वाली विशिष्ट मौसमी कमजोर प्रवृत्ति से प्रभावित होगा। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, ईआईए ने गैस भंडार में 33 बीसीएफ की वृद्धि का खुलासा किया है, जो अपेक्षित 41 बीसीएफ से कम है और पांच साल के औसत 60 बीसीएफ की बढ़त से काफी नीचे है। गैस की कीमतें 195-225 के दायरे में कारोबार करना जारी रख सकती हैं, जहां सपॉर्ट के पास खरीदारी और रेंजिस्टेंस के पास बेचने की सलाह दी जाती है।



## बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती हैं, क्योंकि चीन के कमजोर आर्थिक आंकड़ों और संपत्ति संकट के बीच बढ़ते भंडार के कारण जोखिम सेंटीमेंट कम हो सकता है, लेकिन आगे की नीतिगत उम्मीदें धातु की कीमतों का समर्थन कर सकती हैं। एक निजी क्षेत्र के सर्वेक्षण के अनुसार चीन की सेवा गतिविधि अगस्त में आठ महीनों में सबसे धीमी गति से बढ़ी, क्योंकि कमजोर मांग ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को परेशान करना जारी रखा और स्टीमुलस उपभोग को सार्थक रूप से पुनर्जीवित करने में विफल रहा। यूरो क्षेत्र में, व्यावसायिक गतिविधि में गिरावट पिछले महीने की शुरुआत में सोची गई तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी। तांबे की कीमतें 710-740 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में चीन के तांबे के आयात में एक साल पहले की तुलना में 5% की गिरावट आई है, जो लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और कमजोर मांग के कारण प्रभावित हुआ है, जबकि घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ाया है। एलएमई-पंजीकृत गोदामों में तांबे का भंडार अक्टूबर 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर 133,850 टन तक पहुंच गया है। धातु प्रसंस्करण संयंत्रों की उपग्रह निगरानी के आंकड़ों से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर तांबा गलाने की गतिविधि अगस्त में काफी हद तक सपाट रही, क्योंकि शीर्ष रिफाईंड तांबा उत्पादक चीन में उछाल की अन्य जगहों पर कमी से भरपायी हुई। जिंक की कीमतें 210-230 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद चीन ने रिफाईंड जिंक के आयात के लिए अपनी मांग को फिर से बढ़ाया है। चीन ने इस साल रिफाईंड जिंक का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया है, लेकिन शंघाई बाजार कम भंडार और सीमित समय-स्प्रेड से ग्रस्त है। लोड की कीमतें 183-192 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 194-208 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। स्टील लॉन वायदा (अक्टूबर) की कीमतों के 45700-47300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मांग में सुस्ती और चीनी स्टील उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत का स्टील निर्यात 33% कम हो गया है।

## जलवायु अनुकूल कृषि पर जी-20 तकनीकी कार्यशाला

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) ने 4 से 6 सितंबर तक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें जी 20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों सहित लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार कार्यशाला भारत की अध्यक्षता में जी 20 की थीम, 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के अनुरूप है, जो एक बेहतर दुनिया के लिए एकता और सद्भाव पर जोर देती है।

### कार्यशाला की कुछ मुख्य बातें

- कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा करने और उन्हें उजागर करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में देशों के कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर जोर दिया गया।
- प्रख्यात वक्ताओं ने कृषि में लचीलापन हासिल करने के लिए अपने-अपने देशों में अपने अनुभव साझा किए। वे वैज्ञानिक और नवीन समाधानों की भी सूची बनाएंगे जो कृषि खाद्य प्रणालियों में अनिश्चितता को कम करने के लिए इन उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक हैं।
- कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे ने उल्लेख किया कि कृषि सबसे संवेदनशील क्षेत्र है और यह जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित है जो पहले से ही जी 20 देशों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को हम सभी पहले से ही अनुभव कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस कार्यशाला से निकली सिफारिशें जलवायु-लचीली कृषि प्राप्त करने की दिशा में अहम होगी।
- विभिन्न देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने तकनीकी, संस्थागत और नीति-संबंधी आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं पर चर्चा की।
- उन्होंने दोहराया कि जलवायु-लचीली फसल किस्मों को अपनाकर, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और किसानों और अन्य हितधारकों को क्षमता निर्माण प्रदान करके जलवायु को लेकर लचीलापन हासिल किया जा सकता है।
- सचिव डेयर ने दोहराया कि भारत में कृषि जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनशीलता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हाल के वर्षों में, चरम जलवायु की आवृत्ति में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भारत सहित दुनिया भर में कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम बढ़ गया है और इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में आईसीएआर के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में बाजरा पर अनुसंधान के क्षेत्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए प्रतिनिधियों को आईसीएआर-भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) हैदराबाद के भ्रमण दौरे पर ले जाया गया।
- भारत बाजरा के क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पहल को मजबूत करने और अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है ताकि उन्हें अपने देशों में इन फसलों को विकसित करने में मदद मिल सके।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक के अनुसार, कार्यशाला के परिणामस्वरूप उपस्थित देशों के बीच ज्ञान साझा करने पर एक आम समझ विकसित हुई क्योंकि प्रत्येक देश को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- भारत उन अग्रणी देशों में से एक है जिसने जलवायु परिवर्तन अनुसंधान और जलवायु लचीली कृषि प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश किया है, जो बहुत मजबूत और मजबूत हैं।
- भारत ने विभिन्न जलवायु चरम स्थितियों के लिए फसलों की बड़ी किस्में विकसित कीं - लंबी सर्दियाँ, गर्मी, और ऐसी फसलें जो चक्रवात जैसी चरम जलवायु घटनाओं का भी सामना कर सकती हैं।
- यह सुनिश्चित किया गया कि इस कार्यशाला का विचार-विमर्श कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए अनुसंधान और विकास मुद्दों के लिए एक रोड मैप प्रदान करेगा।



भारत 2023 INDIA

वयुधेव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्डिकेटिड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्डिकेटिड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।